



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, जनवरी 18—जनवरी 24, 2009, शनिवार/पौष 28—माघ 4, 1930
No. 3] NEW DELHI, JANUARY 18—JANUARY 24, 2009, SATURDAY/PAUSA 28—MAGHA 4, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2008

आ. अ. 4.—जबकि, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्र.सं.	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिये समान्य निर्वाचन, 2007	134-चर्दा (अ.जा.)	बुधई लाल, ग्राम शंकरपुर, पोस्ट बाबागंज, थाना रूपईडीहा, जिला-बहराइच।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	136-बहराइच	गंगा राम, ग्राम-रमवापुर, पो.-डिहवा, जिला-बहराइच।	-वही-
3.	-वही-	-वही-	रईस, मो.-नाजिर पुरा, बहराइच।	-वही-
4.	-वही-	-वही-	संदीप सिन्हा, मो. ब्राम्हणी पुरा, तहसील/ जिला-बहराइच।	-वही-
5.	-वही-	185-गौरी बाजार	मदनलाल सिंह, ग्रा. व पो.-विक्रम, विशुनपुर, देवरिया।	-वही-
6.	-वही-	-वही-	बृजभान उर्फ बबलू, ग्रा.-छेरिहा, पो.-सिरजम, देवरिया।	-वही-
7.	-वही-	-वही-	अकलू, ग्रा. व पो.-करजहाँ, देवरिया।	-वही-
8.	-वही-	-वही-	शेषनाथ राय, ग्रा. व पो.-चरियाँव बुजुर्ग, देवरिया।	-वही-
9.	-वही-	188-भाटपार रानी	धूप उर्फ घुव नारायण राव, ग्राम-द्वारिका, पो.-तरकुलवा, देवरिया।	-वही-
10.	-वही-	-वही-	महातम मौर्य, ग्राम-छपिया जगदेव, भटनी, देवरिया।	-वही-
11.	-वही-	189-सलेमपुर	राजीव, ग्राम-कुण्डौली, पो.-तार रोड, देवरिया।	-वही-
12.	-वही-	-वही-	जयप्रकाश, सलेमपुर, देवरिया।	-वही-

1	2	3	4	5
13.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिये समान्य निर्वाचन, 2007	190-बरहज	आदित्य, ग्राम-गोपवापार, पो.-गड़वना, देवरिया।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14.	-वही-	-वही-	रमेश, ग्रा. महुई संग्राम, पो. मरकड़ा, देवरिया।	-वही-
15.	-वही-	-वही-	रतन केडिया, आजाद नगर दक्षिणी, बरहज, देवरिया।	-वही-
16.	-वही-	-वही-	राम छबिला, ग्रा. पिपराबेनी, पो. कसिली, देवरिया।	-वही-
17.	-वही-	-वही-	लाल बहादुर, ग्रा. पिपरा मिश्र, लार रोड, देवरिया।	-वही-
18.	-वही-	-वही-	वंशी, ग्रा. व पो. धौला पंडित, देवरिया।	-वही-
19.	-वही-	279-भोगनीपुर (अ.जा.)	अनिल कुमार, नि. शेखपुर गुढ़ा, जालौन।	-वही-
20.	-वही-	-वही-	रामदास, नि. भैरमपुर म. परास, कानपुर नगर।	-वही-
21.	-वही-	-वही-	श्री विष्णु बाबू, नि. हटहरा कानपुर नगर।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
22.	-वही-	364-डिबाई	रामवीर सिंह, ग्राम देवी का नगला, तहसील डिबाई, बुलन्दशहर।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
23.	-वही-	365-अनूपशहर	गोपाल सिंह, ग्राम बुद्धपुर, तहसील डिबाई, बुलन्दशहर।	-वही-
24.	-वही-	-वही-	विजयपाल सिंह, निवासी मधु विहार, खोडा कॉलोनी, गाजियाबाद।	-वही-
25.	-वही-	-वही-	होशियार, ग्राम बंगला पूठरी, तहसील बुलन्दशहर।	-वही-
26.	-वही-	366-स्याना	विनय, 126/4, जागृति विहार, मेरठ।	-वही-

1	2	3	4	5
27.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिये समान्य निर्वाचन, 2007	366-स्याना	अशोक, ग्राम बिगराऊ, उत्तर प्रदेश।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
28.	-वही-	-वही-	इन्त्याज, ग्राम तिरथली, गौतमबुद्ध नगर।	-वही-
29.	-वही-	367-अगोता	श्री सुजात अली, म. नं. 214, नया गांव शहरी क्षेत्र, बुलन्दशहर।	-वही-
30.	-वही-	-वही-	श्री रनवीर, ग्राम सेगा जगतपुर, तहसील स्याना, उत्तर प्रदेश।	-वही-
31.	-वही-	368- बुलन्दशहर	आरिफ जलीस, भवन संख्या 12, गददियान, बुलन्दशहर।	-वही-
32.	-वही-	-वही-	मोहम्मद सारिक, ग्राम ऐंछाना, जिला बुलन्दशहर।	-वही-
33.	-वही-	369-शिकारपुर (अ.जा.)	श्री महेन्द्र, ग्राम घुंघरावली बनवारीपुर, शिकारपुर, उत्तर प्रदेश।	-वही-
34.	-वही-	-वही-	श्री बिशन स्वरूप तुरहा, 450, जयदेवी नगर, पश्चिमी, मेरठ, उत्तर प्रदेश।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
35.	-वही-	371-दादरी	कारी मुस्तफा, निवासी नई आबादी, दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
36.	-वही-	-वही-	मैधराज, निवासी दौलत राम कालोनी, कस्बा दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर।	-वही-
37.	-वही-	-वही-	अनूप शर्मा, निवासी II/16, हाईडिल कालोनी, सै.-20, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर।	-वही-
38.	-वही-	-वही-	जितेन्द्र, निवासी ग्राम व डा. साकीपुरा, जनपद गौतमबुद्धनगर।	-वही-
39.	-वही-	372-गाजियाबाद	योगेन्द्र, 229, मकनपुर इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।	-वही-
40.	-वही-	374-मोदीनगर	बाल किशन, ग्राम शामली, तहसील मोदी नगर, उत्तर प्रदेश।	-वही-

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./2007]

आदेश से,
बर्नार्ड जॉन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th Deember, 2008

O.N. 4.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Elections to the Legislative Assembly, in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name, has failed to lodge the account of his election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder, as shown in column (5) of the said Table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either house of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. and Name of Constituency	Name and address of contesting candidates	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, of the State of Uttar Pradesh, 2007.	134-Charda (SC)	Budhayee Lal, Vill. Shankarpur, Post-Babaganj, P.S. Rupaidiha, Distt. Bahraich.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
2.	-do-	136-Bahraich	Ganga Ram, Village Ramwapur, P.O. Dihwa, Distt. Bahraich.	-do-
3.	-do-	-do-	Raish, Moh. Nazirpura West, Bahraich.	-do-
4.	-do-	-do-	Sandeep Sinha, Moh. Brahamni Pura, Tehsil/Distt. Bahraich.	-do-
5.	-do-	185-Gauri Bazar	Madan Lal Singh, Vill. & Post-Vikram Vishunpur, Deoria.	-do-
6.	-do-	-do-	Brijbhan alias Babloo, Vill. Chheriha, Post-Sirjam, Deoria.	-do-
7.	-do-	-do-	Akaloo, Vill. & Post Karjahan, Deoria.	-do-
8.	-do-	-do-	Sheshnath Rai Vill. & Post Chariyaon, Bujurg, Deoria.	-do-

12541709-2

1	2	3	4	5
9.	General Election to the Legislative Assembly, of the State of Uttar Pradesh, 2007.	188-Bhatpar Rani	Dhrup alias Dhruvanarain Rao, Vill. Dwarika, P.O. Tarkhulwa, Deoria.	Failed to lodge any account of his/he election expenses.
10.	-do-	-do-	Mahatam Maurya, Vill. Chhapi, Jaidev, Bhatni, Deoria.	-do-
11.	-do-	189-Salempur	Rajiv, Vill. Kundouli, P.O. Lar Road, Deoria.	-do-
12.	-do-	-do-	jai Prakash, Salempur, Deoria.	-do-
13.	-do-	190-Barhaj	Aditya, Vill. Gopawapar, P.O. Harkara Deoria.	-do-
14.	-do-	-do-	Ramesh, Vill. Mahui Sangram, P.O. Markara, Deoria.	-do-
15.	-do-	-do-	Ratan Kedia, Azad Nagar South, Barhaj, Deoria.	-do-
16.	-do-	-do-	Ram Chhabila, Vill. Pipara Beni, P.O. kasili, Deoria.	-do-
17.	-do-	-do-	Lal Bahadur, Vill. Pipara Mishra, Lar Road, Deoria.	-do-
18.	-do-	-do-	Vanshi, Vill. & P.O. Dhaula Pandit, Deoria.	-do-
19.	-do-	279-Bhogpur (SC)	Anil Kumar, Shekhpura Guda, Distt. Jalaun.	-do-
20.	-do-	-do-	Ramdass, Bhaurampur Mazara Paras, Distt. Kanpur Nagar.	-do-
21.	-do-	-do-	Vishnu Babu, Itarha, Kanpur Nagar.	Failed to lodge the account of his/her election expenses in the manner required by law.
22.	-do-	364-Debai	Ramvir Singh, Vill. Devi Ka Nangla, Teh. Debai, Bulandshahar.	Failure to lodge any account of his/her election expenses.
23.	-do-	365-Anupshahar	Gopal Singh, Vill. Budhpur, Tehsil Debai, Bulandshahar.	-do-

1	2	3	4	5
24.	General Election to the Legislative Assembly, of the State of Uttar Pradesh, 2007.	365-Anupshahr	Vijay Pal Singh, Madhu Vihar, Khora Colony, Ghaziabad.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
25.	-do-	-do-	Hoshiyar, Vill. Bangla Poothri, Tehsil Bulandshahr.	-do-
26.	-do-	366-Siana	Vinay, 124/4, Jagriti Vihar, Meerut.	-do-
27.	-do-	-do-	Ashok, Vill. Bigras, Uttar Pradesh.	-do-
28.	-do-	-do-	Intiyaz, Vill. Tirthali, Distt. G.B. Nagar.	-do-
29.	-do-	367-Agota	Sujat Ali, H.No. 214, Naya Gaon, Shahri Kshetra, Bulandshahr.	-do-
30.	-do-	-do-	Ranveer, Vill. Segra Jagatpur, Teh. Syana, Uttar Pradesh.	-do-
31.	-do-	368-Bulandshahr	Arif Zalis, 12, Gaddiyan, Bulandshahr.	-do-
32.	-do-	-do-	Mohammed Sarik, Ainchana, Bulandshahr.	-do-
33.	-do-	369-Shikarpur (SC)	Mahendra, Vill. Ghungravali, Banwaripur, Shikarpur, Uttar Pradesh.	-do-
34.	-do-	-do-	Bishan Swaroop Turaha, 450, Jaidevi Nagar, W. Meerut, Uttar Pradesh.	Failed to lodge the account of his/her election expenses in the manner required by law.
35.	-do-	371-Dadri	Kari Mustfa, R/o New Abadi, Dadri, Distt. Gautambudhnagar.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
36.	-do-	-do-	Maighraj, R/o Daulatram Colony, Kasba Dadri, Distt. Gautambudhnagar.	-do-
37.	-do-	-do-	Anup Sharma, R/o II/16, Hydil Colony, Sector-20, Noida, Distt. Gautambudhnagar.	-do-
38.	-do-	-do-	Jitendra, R/o Vill. & Post-Sakipur, Distt. Gautambudhnagar.	-do-

1	2	3	4	5
39.	General Election to the Legislative Assembly, of the State of Uttar Pradesh, 2007.	372-Ghaziabad	Yogendra, 229, Makanpur, Indirapuram, Ghaziabad.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
40.	-do-	374-Modinagar	Bal Kishan, Village Shamli, Tehsil Modinagar, Uttar Pradesh.	-do-

[No. 76/UP-LA/2007]

By Order,

BERNARD JOHN, Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2009

आ. अ. 5.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के प्रयोग में भारत निर्वाचन आयोग, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 18 जून, 2008 की अपनी अधिसूचना सं. 434/दिल्ली-लो. स./2008 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मद संख्या 01-चांदनी चौक के सामने विद्यमान प्रविष्टि के लिए “उपायुक्त (उत्तर जिला)” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं. 434/दिल्ली-लो. स./2009]

आदेश से,

स्टैण्डहोप युहलुंग, सचिव

New Delhi, the 16th January, 2009

O.N. 5.—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby makes the following amendment in its Notification No. 434/DL-HP/2008, dated 18th June, 2008, relating to the appointment of Returning Officer for Parliamentary Constituency, namely:—

In column 2 of the Table appended to the above said notification, against item 1-Chandni Chowk, for the existing entry, the entry “Deputy Commissioner (North District)” shall be substituted.

[No.434/DL-HP/2009]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Secy.